

1. If net profits are ₹ 40,000 and non-cash expenses are ₹ 5,000, the funds from operations will be :
 (A) ₹ 40,000
 (B) ₹ 35,000
 (C) ₹ 45,000
 (D) ₹ 50,000
2. Methods of valuation of goodwill is/are :
 (A) Average profit method
 (B) Super profit method
 (C) Capitalisation method
 (D) All of the above
3. According to Walter, firm should pay 100% dividend if :
 (A) $r > k$
 (B) $r = k$
 (C) $r < k$
 (D) None of the above
4. Meaning of net assets is :
 (A) Total assets – Total liabilities
 (B) Fixed assets + Current assets
 (C) Total assets – Current liabilities
 (D) Total assets – outside liabilities
5. Favourable balance of cash book means :
 (A) Debit balance as per cash book
 (B) Debit balance as per passbook
 (C) Credit balance as per cash book
 (D) None of the above
6. The cost of asset is ₹ 60,000. The scrap value will be 25% at the end of 10 years. If straight line method of depreciation is followed, the rate of depreciation is :
 (A) 7.5%
 (B) 9%
 (C) 10%
 (D) 15%
7. Dissolution expenses are recorded in realisation account in the :
 (A) Debit side
 (B) Credit side
 (C) Not recorded in realisation account
 (D) None of the above
8. The intrinsic value of shares is determined :
 (A) On the basis of net assets
 (B) On the basis of profit
 (C) On the basis of market value
 (D) On value decided by speculators
1. यदि शुद्ध लाभ ₹ 40,000 है व गैर नकदी व्यय ₹ 5,000 है तो संचालन से कोष होंगे :
 (A) ₹ 40,000
 (B) ₹ 35,000
 (C) ₹ 45,000
 (D) ₹ 50,000
2. ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ है/हैं :
 (A) औसत लाभ विधि
 (B) अधि लाभ विधि
 (C) पूँजीकरण विधि
 (D) उपर्युक्त सभी
3. वॉल्टर के अनुसार, फर्म को 100% लाभांश देना चाहिए यदि :
 (A) $r > k$
 (B) $r = k$
 (C) $r < k$
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
4. शुद्ध सम्पत्ति का आशय है :
 (A) कुल सम्पत्तियाँ – कुल दायित्व
 (B) स्थायी सम्पत्तियाँ + चालू सम्पत्ति
 (C) कुल सम्पत्तियाँ – चालू दायित्व
 (D) कुल सम्पत्तियाँ – वाह्य दायित्व
5. रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का अर्थ है :
 (A) रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष
 (B) पासबुक के अनुसार डेबिट शेष
 (C) रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
6. सम्पत्ति की लागत ₹ 60,000 है। 10 वर्षों के उपरांत सम्पत्ति का अवशिष्ट मूल्य 25% है। यदि ह्रास सीधी रेखा पद्धति से लगाया जा रहा है तो ह्रास दर होगी :
 (A) 7.5%
 (B) 9%
 (C) 10%
 (D) 15%
7. समापन के व्ययों को वसूली खाते में लिखा जाता है :
 (A) डेबिट (नाम) पक्ष में
 (B) क्रेडिट (जमा) पक्ष में
 (C) वसूली खाते में नहीं लिखा जाता है
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
8. अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात होता है :
 (A) शुद्ध सम्पत्तियों के आधार पर
 (B) लाभों के आधार पर
 (C) बाजार मूल्य के आधार पर
 (D) सटोरियों द्वारा निर्धारित मूल्य पर

9. When of the following transactions will change current ratio ?
 (A) Purchase of goods for cash
 (B) Payments to trade creditor
 (C) Accepting bill drawn by trade creditors
 (D) Dishonouring of bills receivable
10. Which of the following is not a quick asset :
 (A) Stock
 (B) Sundry debtors
 (C) Bills receivables
 (D) Cash in hand
11. Debit note is prepared for which transaction ?
 (A) For purchase of goods
 (B) For cash sales of goods
 (C) For purchase return
 (D) For sales return
12. Under cost control accounting, normal wastage of material is debited to :
 (A) Costing profit & loss account
 (B) Stores ledger control account
 (C) Financial goods ledger control account
 (D) Factory overhead control account
13. Under which Act, audit is compulsory ?
 (A) Partnership Act, 1932
 (B) Indian Companies Act, 2013
 (C) Both (A) and (B)
 (D) None of the above
14. The two basic measures of liquidity are :
 (A) Stock and debtors turnover ratio
 (B) Current ratio and operating ratio
 (C) Current ratio and liquid ratio
 (D) Gross profit and net profit ratio
15. Which of the following is an application of funds ?
 (A) Payment of salaries
 (B) Writing of depreciation
 (C) Sale of fixed assets
 (D) Payment of dividend
16. Operating ratio is :
 (A) Profitability ratio
 (B) Activity ratio
 (C) Solvency ratio
 (D) None of the above
9. निम्नलिखित में से कौन सा लेन-देन चालू अनुपात में परिवर्तन ला सकता है ?
 (A) माल की नकद खरीद
 (B) व्यापारिक लेनदारों को भुगतान
 (C) व्यापारिक लेनदार द्वारा लिखित विनिमय पत्र स्वीकार करना
 (D) प्राप्य विपत्र का अनादरण
10. निम्नांकित में से कौन-सी तरल सम्पत्ति नहीं है ?
 (A) स्टॉक
 (B) विविध देनदार
 (C) प्राप्य बिल
 (D) रोकड़ हाथ में
11. नाम-पत्र किस लेन-देन के लिए तैयार किया जाता है?
 (A) माल को क्रय करने के लिए
 (B) माल को नकद विक्रय करने के लिए
 (C) क्रय वापसी करने के लिए
 (D) विक्रय वापसी करने के लिए
12. लागत नियंत्रण लेखाविधि में सामग्री की सामान्य क्षति को डेबिट किया जाता है :
 (A) लागत लाभ-हानि खाता
 (B) स्टोर खाता बही नियंत्रण खाता
 (C) निर्मित माल खाता बही नियंत्रण खाता
 (D) कारखाना उपरिब्यय नियंत्रण खाता
13. कौन-से अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण अनिवार्य है :
 (A) साझेदारी अधिनियम, 1932
 (B) भारतीय कम्पनीज अधिनियम, 2013
 (C) दोनों (A) एवं (B)
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
14. तरलता के मापने की दो मुख्य माप हैं :
 (A) स्कन्ध तथा देनदार आवर्त अनुपात
 (B) चालू अनुपात तथा परिचालन अनुपात
 (C) चालू अनुपात तथा तरल अनुपात
 (D) सकल लाभ तथा शुद्ध लाभ अनुपात
15. निम्नलिखित में से कौन-सा कोषों का अनप्रयोग है ?
 (A) वेतन का भुगतान
 (B) ह्रास का अपलेखन
 (C) स्थायी सम्पत्ति का विक्रय
 (D) लाभांश का भुगतान
16. संचालन अनुपात है :
 (A) लाभदायकता अनुपात
 (B) क्रियाशीलता अनुपात
 (C) शोधन क्षमता अनुपात
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

17. If sales are ₹ 3,00,000, gross profit is 1/3 on cost, purchases are ₹ 2,50,000 and the closing stock is ₹ 50,000, the opening stock will be :
- (A) ₹ 25,000
 (B) ₹ 75,000
 (C) ₹ 50,000
 (D) NIL
18. Audit of partnership firm is :
- (A) Compulsory
 (B) Voluntary
 (C) Optional
 (D) Periodical
19. Which one explain the accounting of amalgamation ?
- (A) Accounting Standard – 6
 (B) Accounting Standard – 8
 (C) Accounting Standard – 10
 (D) Accounting Standard – 14
20. According to Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 by which percent of a company will have to create debenture redemption reserve of the amount of the debentures to be redeemed ?
- (A) 50%
 (B) 25%
 (C) 70%
 (D) 100%
21. Valuation of shares is necessary :
- (A) On reconstruction of company
 (B) On amalgamation
 (C) On absorption
 (D) None of the above
22. If current ratio is 2.5 and working capital is ₹ 60,000. Then amount of current assets will be :
- (A) ₹ 3,00,000
 (B) ₹ 5,00,000
 (C) ₹ 4,00,000
 (D) ₹ 1,00,000
23. Super profit means :
- (A) Total profit / Number of years
 (B) Average profit – Normal profit
 (C) Weighted profit / Number of weights
 (D) None of the above
24. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3 : 2. They admit C for 1/4th share. The new profit sharing ratio will be :
- (A) 3 : 2 : 1
 (B) 6 : 4 : 3
 (C) 9 : 5 : 6
 (D) 9 : 6 : 5
17. यदि बिक्री ₹ 3,00,000 लागत पर सकल लाभ 1/3, क्रय ₹ 2,50,000 व अंतिम रहितया ₹ 50,000 है, तो प्रारम्भिक रहितयां होगा :
- (A) ₹ 25,000
 (B) ₹ 75,000
 (C) ₹ 50,000
 (D) शून्य
18. साझेदारी फर्म का अंकेक्षण होता है :
- (A) अनिवार्य
 (B) ऐच्छिक
 (C) वैकल्पिक
 (D) सामायिक
19. कौन-सा एकीकरण लेखांकन की व्याख्या करता है ?
- (A) लेखांकन मानक – 6
 (B) लेखांकन मानक – 8
 (C) लेखांकन मानक – 10
 (D) लेखांकन मानक – 14
20. कम्पनी (अंश पूँजी तथा ऋण पत्र) नियम, 2014 के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितने प्रतिशत से ऋण-पत्र शोधन कोष का निर्माण करना होगा :
- (A) 50%
 (B) 25%
 (C) 70%
 (D) 100%
21. अंशो का मूल्यांकन आवश्यक है :
- (A) कम्पनी के पुनर्निर्माण पर
 (B) एकीकरण पर
 (C) संविलयन पर
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
22. यदि चालू अनुपात 2.5 है तथा कार्यशील पूँजी ₹ 60,000 है। तो चालू सम्पत्ति होगी :
- (A) ₹ 3,00,000
 (B) ₹ 5,00,000
 (C) ₹ 4,00,000
 (D) ₹ 1,00,000
23. अधिलाभ का अर्थ है :
- (A) कुल लाभ / वर्षों की संख्या
 (B) औसत लाभ – सामान्य लाभ
 (C) भारित लाभ / भारों की संख्या
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
24. A और B 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि विभाजित करते हैं। वे 1/4 भाग के लिये C को प्रवेश देते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात होगा :
- (A) 3 : 2 : 1
 (B) 6 : 4 : 3
 (C) 9 : 5 : 6
 (D) 9 : 6 : 5

25. Garner versus Murray case was held in :
(A) India
(B) England
(C) Nepal
(D) China
26. Premium on redemption of debentures is :
(A) Personal Account
(B) Real Account
(C) Nominal Account
(D) None of the above
27. On the insolvency of a partner, the deficiency of his capital account is borne by the solvent partners according to the decision of Garner versus Murray :
(A) In equal ratio
(B) In profit sharing ratio
(C) In capital ratio
(D) None of the above
28. Capital expenditure provides :
(A) Short term benefit
(B) Long term benefit
(C) Very short term benefit
(D) None of the above
29. A company issued 10000 shares out of 14000 applied. Mr. 'X' got 300 shares on pro-ratio basis. How many share he would have applied ?
(A) 302 shares
(B) 213 shares
(C) 300 shares
(D) 420 shares
30. Investigation begins when :
(A) Book-keeping ends
(B) Accountancy ends
(C) Auditing ends
(D) None of the above
31. Balance of shares forfeiture account after re-issue of forfeited shares is transferred to :
(A) Profit and Loss Account
(B) Capital Reserve Account
(C) General Reserve Account
(D) None of the above
32. Which method of cost accounting is used in hospitals ?
(A) Operating costing
(B) Unit costing
(C) Job costing
(D) Batch costing
25. गार्नर बनाम मर्रे का विवाद हुआ था :
(A) भारत में
(B) इंग्लैण्ड में
(C) नेपाल में
(D) चीन में
26. ऋण-पत्रों के शोधन पर दिये जाने वाला प्रीमियम है :
(A) व्यक्तिगत खाता
(B) वास्तविक खाता
(C) नाममात्र खाता
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
27. एक साझेदार के दिवालिया होने पर उसकी पूँजी खाते की कमी को गार्नर बनाम मर्रे के निर्णय के अनुसार शोधक्षम्य साझेदार वहन करते हैं :
(A) बराबर अनुपात में
(B) लाभ अनुपात में
(C) पूँजी अनुपात में
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
28. पूँजीगत व्यय से प्राप्त होता है :
(A) अल्पकालीन लाभ
(B) दीर्घकालीन लाभ
(C) अति अल्पकालीन लाभ
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
29. एक कम्पनी द्वारा निर्गमित 10000 अंशों हेतु 14000 आवेदन प्राप्त हुए मि0 'X' को अनुपातिक आधार पर 300 अंश प्राप्त हुए। उन्होंने कितने अंशों हेतु आवेदन किया होगा ?
(A) 302 अंश
(B) 213 अंश
(C) 300 अंश
(D) 420 अंश
30. इनवेस्टीगेशन प्रारम्भ होता है, जब :
(A) पुस्तपालन समाप्त होता है
(B) लेखांकन समाप्त होता है
(C) अंकेक्षण समाप्त होता है
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
31. हरण किये गये अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात् अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है :
(A) लाभ-हानि खाते में
(B) पूँजी संचय खाते में
(C) सामान्य संचय खाते में
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
32. अस्पतालों में लागत लेखांकन की कौन-सी विधि प्रयुक्त होती है ?
(A) परिचालन लेखांकन
(B) इकाई लेखांकन
(C) उपकार्य लेखांकन
(D) समूह लेखांकन

33. Cash flow statement is based upon :
 (A) Accrual basis of accounting
 (B) Cash basis of accounting
 (C) Both (A) and (B)
 (D) None of the above
34. Minimum wage is guaranteed in :
 (A) Rowan Premium Scheme
 (B) Emerson Efficiency Premium Scheme
 (C) Gantt Task Premium Scheme
 (D) Halsey Premium Scheme
35. If the opening capital is ₹ 60000, drawings ₹ 5000, additional capital introduced during the year ₹ 10000, closing capital ₹ 90000. The value of profit earned during the period will be :
 (A) ₹ 40,000
 (B) ₹ 50,000
 (C) ₹ 25,000
 (D) ₹ 35,000
36. Which of the following would result from a decrease in the provision for bad and doubtful debts ?
 (A) An increase in net profit
 (B) A reduction in net profit
 (C) An increase in gross profit
 (D) A reduction in gross profit
37. Where demand forecasting is difficult, then budget is prepared :
 (A) Production
 (B) Sales
 (C) Financial
 (D) Flexible
38. The Head Office of 'The Institute of Cost and Works Accountants of India' is situated in :
 (A) Kolkata
 (B) Mumbai
 (C) Delhi
 (D) None of the above
39. The success of perpetual inventory system depends upon :
 (A) Placing order for material at regular intervals
 (B) Exercising control over the issue of material
 (C) Records the receipts and issue of materials immediately after each transaction
 (D) Recording the receipt of materials by store-keeper in the 'Bin Cards'
33. रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है :
 (A) लेखांकन के उपाजन के आधार पर
 (B) लेखांकन के रोकड़ के आधार पर
 (C) दोनों (A) एवं (B)
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
34. न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन रहता है :
 (A) रोवन प्रब्याजि योजना में
 (B) इमरसन कार्यदक्षता प्रब्याजि योजना में
 (C) गैण्ट कार्य प्रब्याजि योजना में
 (D) हालसे प्रब्याजि योजना में
35. यदि आरम्भिक पूँजी ₹ 60000, आहरण ₹ 5000, सत्र की अतिरिक्त पूँजी ₹ 10000, अन्तिम पूँजी ₹ 90000 है, तो वर्ष के दौरान अर्जित लाभ होगा :
 (A) ₹ 40,000
 (B) ₹ 50,000
 (C) ₹ 25,000
 (D) ₹ 35,000
36. यदि अप्राप्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में कमी कर दी जाए, तो निम्न परिणाम होगा :
 (A) शुद्ध लाभ में वृद्धि
 (B) शुद्ध लाभ में कमी
 (C) सकल लाभ में वृद्धि
 (D) सकल लाभ में कमी
37. जब माँग का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है तब इस बजट का निर्माण करते हैं :
 (A) उत्पादन
 (B) विक्रय
 (C) वित्तीय
 (D) लोचदार
38. 'दी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउण्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया' का प्रधान कार्यालय स्थित है ?
 (A) कोलकाता में
 (B) मुम्बई में
 (C) दिल्ली में
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
39. निरन्तर स्कन्ध प्रणाली की सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है ?
 (A) सामग्रियों के लिए नियमित अंतरालों पर आर्डर भेजना
 (B) सामग्रियों के निर्गमन पर नियन्त्रण रखना
 (C) प्रत्येक लेन-देन के पश्चात् सामग्रियों की प्राप्ति तथा निर्गमन के रिकार्ड रखना
 (D) भण्डारी द्वारा सामग्रियों की प्राप्ति को 'बिन कार्डों' पर रिकार्ड रखना

40. Agriculture income is exempted from income tax under which of the following Section of Income Tax Act, 1961 :
- (A) 2(1A)
(B) 10(1)
(C) 10(2)
(D) 10(4)
41. Valuation of closing stock is to be made :
- (A) On cost price
(B) On market price
(C) Cost price or market price, whichever is less
(D) None of the above
42. Cost of abnormal idle time is transferred to :
- (A) Costing Profit and Loss Account
(B) General Profit and Loss Account
(C) Profit and Loss Appropriation Account
(D) None of the above
43. Warehousing cost is a part of :
- (A) Production overheads
(B) Administration overheads
(C) Selling overheads
(D) Distribution overheads
44. Indian Contract Act was applied on :
- (A) 1 September, 1860 A.D.
(B) 1 September, 1872 A.D.
(C) 2 October, 1947 A.D.
(D) 15 August, 1947 A.D.
45. Annual value is determined under which section of Income Tax Act ?
- (A) Section 21
(B) Section 27
(C) Section 25
(D) Section 23
46. Balance sheet discloses :
- (A) Cash position of the business
(B) Financial position of the business
(C) Income position of the business
(D) None of the above
47. Which of the following changes will decrease the cash from operations ?
- (A) Increase in the value of stock
(B) Decrease in the amount of temporary investments
(C) Increase in the amount of creditors
(D) None of the above
48. Responsibility accounting is part of :
- (A) Financial accounting
(B) Cost accounting
(C) Management accounting
(D) None of the above
40. आयकर अधिनियम, 1961 की किस धारा के अंतर्गत कृषि आय को आयकर से छूट प्राप्त है ?
- (A) 2(1A)
(B) 10(1)
(C) 10(2)
(D) 10(4)
41. अन्तिम रहतिया का मूल्यांकन किया जाना चाहिए :
- (A) लागत मूल्य पर
(B) बाजार मूल्य पर
(C) लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
42. असामान्य कार्यहीन समय की लागत हस्तांतरित की जाती है :
- (A) लागत लाभ-हानि खाते को
(B) सामान्य लाभ-हानि खाते को
(C) लाभ-हानि नियोजन खाते को
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
43. भंडारण लागत अंश है :
- (A) उत्पादन उपरिव्यय का
(B) प्रशासन उपरिव्यय का
(C) विक्रय उपरिव्यय का
(D) वितरण उपरिव्यय का
44. भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू किया गया :
- (A) 1 सितम्बर 1860 ई0 को
(B) 1 सितम्बर 1872 ई0 को
(C) 2 अक्टूबर 1947 ई0 को
(D) 15 अगस्त 1947 ई0 को
45. वार्षिक मूल्य का निर्धारण किस धारा के अधीन किया जाता है ?
- (A) धारा 21
(B) धारा 27
(C) धारा 25
(D) धारा 23
46. बैलेंस शीट व्यक्त करती है :
- (A) व्यवसाय की रोकड़ की स्थिति
(B) व्यवसाय की वित्तीय स्थिति
(C) व्यवसाय की आय की स्थिति
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
47. निम्नलिखित परिवर्तनों में कौन संचालन रोकड़ को कम करेगा ?
- (A) स्टॉक के मूल्य में वृद्धि
(B) अस्थायी निवेशों की राशि में कमी
(C) लेनदारों की राशि में वृद्धि
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
48. उत्तरदायित्व लेखांकन हिस्सा है :
- (A) वित्तीय लेखांकन का
(B) लागत लेखांकन का
(C) प्रबन्ध लेखांकन का
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

49. Input in a process is 2,000 units and normal loss is 10%. If finished output in process is 1,900 units, there is a/an :
(A) Abnormal loss of 100 units
(B) Normal gain of 100 units
(C) Normal loss of 100 units
(D) Abnormal gain of 100 units
50. Which of the following is not an accounting concept ?
(A) Matching concept
(B) Dual aspect concept
(C) True and fair concept
(D) Going concern concept
51. Which of the following is not included in owned funds ?
(A) Equity shares
(B) Preference shares
(C) Ploughing back of profits
(D) Financing through public deposits
52. Which of the following centres does not exist in responsibility accounting ?
(A) Investment centre
(B) Profit centre
(C) Expenditure centre
(D) Sales centre
53. When was Banking Companies Regulation Act implemented in India ?
(A) In 1947 A.D.
(B) In 1949 A.D.
(C) In 1950 A.D.
(D) In 1956 A.D.
54. If the inventory turnover is divided by 365, it becomes a measure of :
(A) Average collection period
(B) Average stock
(C) The average age of inventory
(D) Sales efficiency
55. Which of the following is not the benefit of budgetary control ?
(A) Aid in co-ordination
(B) Aid in market segmentation
(C) Improvement in planning
(D) None of the above
56. Equity shareholders are :
(A) Customers of the company
(B) Owners
(C) Creditors
(D) None of the above
49. किसी प्रक्रिया में 2,000 इकाइयाँ लगाई गई एवं सामान्य हानि 10% है। यदि प्रक्रिया में निर्मित उत्पादन 1,900 इकाइयाँ हैं तो होगी :
(A) 100 इकाइयों की असामान्य हानि
(B) 100 इकाइयों की सामान्य बचत
(C) 100 इकाइयों की सामान्य हानि
(D) 100 इकाइयों की असामान्य बचत
50. निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन अवधारणा नहीं है?
(A) अनुरूपता अवधारणा
(B) द्वि-पक्षीय अवधारणा
(C) सत्य एवं उचित अवधारणा
(D) चालू व्यवसाय की अवधारणा
51. निम्न में से कौन-सा स्वामित्व कोष के अंतर्गत नहीं आता ?
(A) समता अंश
(B) पूर्वाधिकार अंश
(C) लाभों का पुनर्वियोजन
(D) जन निक्षेप द्वारा वित्तियन
52. उत्तरदायित्व लेखांकन में निम्न में से कौन-सा केन्द्र स्थापित नहीं होता ?
(A) विनियोग केन्द्र
(B) लाभ केन्द्र
(C) व्यय केन्द्र
(D) बिक्री केन्द्र
53. बैंकिंग कम्पनी अधिनियम भारत में लागू किया गया ?
(A) सन् 1947 ई० में
(B) सन् 1949 ई० में
(C) सन् 1950 ई० में
(D) सन् 1956 ई० में
54. यदि स्कन्ध आवृत अनुपात को 365 से भाग कर दें तो यह मापता है :
(A) औसत संग्रह अवधि
(B) औसत स्कन्ध
(C) स्कन्ध की औसत आयु
(D) बिक्री कुशलता
55. निम्नलिखित में से कौन-सा बजटरी नियंत्रण का लाभ नहीं है ?
(A) समन्वय में सहायक
(B) बाजार विभक्तीकरण में सहायक
(C) नियोजन में सुधार
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
56. समता अंशधारी होते हैं :
(A) कम्पनी के ग्राहक
(B) स्वामी
(C) लेनदार
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

57. The settlement cycle in National Stock Exchange (NSE) is :
 (A) T+5
 (B) T+3
 (C) T+2
 (D) T+1
58. A purchase of office equipment as credit requires a credit to :
 (A) Accounts payable
 (B) Cash
 (C) Office expenses
 (D) Equipment expenses
59. For calculating the value of an equity share by dividend method, it is necessary to know :
 (A) Net assets
 (B) Face value of shares
 (C) Total capital of the company
 (D) Normal rate of dividend
60. A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1, C is admitted as a new partner for $\frac{1}{4}$ share in profits. What is the sacrificing ratio ?
 (A) 1:1
 (B) 1:2
 (C) 2:1
 (D) 3:2
61. A transaction recorded in the credit side of cash book is transferred to the ledger :
 (A) On debit side of the account
 (B) On credit side of the account
 (C) Is not posted anywhere
 (D) None of the above
62. Credit balance of nominal accounts indicate :
 (A) Trade expenses
 (B) Losses of trade
 (C) Income and receipts of trade
 (D) Assets of trade
63. Cash sales of ₹ 3000 was posted as ₹ 2000. The rectifying entry will be :
 (A) Cash A/c Dr. ₹ 1000 to Sales A/c ₹ 1000
 (B) Suspense A/c Dr. ₹ 1000 to Sales A/c ₹ 1000
 (C) Cash A/c Dr. ₹ 1000 to Suspense A/c ₹ 1000
 (D) None of the above
57. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन0एस0ई0) का निपटान चक्र है:
 (A) टी+5
 (B) टी+3
 (C) टी+2
 (D) टी+1
58. कार्यालय उपकरण का उधार क्रय क्रेडिट (जमा) किया जाता है :
 (A) देय खातों में
 (B) रोकड़ में
 (C) कार्यालय व्यय में
 (D) उपकरण व्यय में
59. लाभांश विधि के द्वारा समता अंश की गणना करने के लिए यह जानना आवश्यक है :
 (A) शुद्ध सम्पत्तियाँ
 (B) अंशों का अंकित मूल्य
 (C) कम्पनी की कुल पूँजी
 (D) लाभांश की सामान्य दर
60. A और B साझेदार हैं जो लाभों का विभाजन 2:1 में करते हैं। C को लाभ में $\frac{1}{4}$ हिस्से के लिए एक नये साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। त्याग अनुपात क्या होगा ?
 (A) 1:1
 (B) 1:2
 (C) 2:1
 (D) 3:2
61. रोकड़ बही के क्रेडिट (जमा) पक्ष में रिकार्ड किया गया लेन-देन खाता बही में स्थानान्तरित किया जाता है :
 (A) खाते के डेबिट (नाम) पक्ष में
 (B) खाते के क्रेडिट (जमा) पक्ष में
 (C) कहीं नहीं लिखा जाता है
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
62. नाममात्र खाते का जमा शेष इंगित करता है :
 (A) व्यापार के व्यय
 (B) व्यापार की हानियाँ
 (C) व्यापार में आय और प्राप्तियाँ
 (D) व्यापार की सम्पत्तियाँ
63. ₹ 3000 से माल बेचने की खतौनी ₹ 2000 से कर दी गई, सुधार की प्रविष्टि होगी :
 (A) रोकड़ खाता Dr. ₹ 1000 विक्रय खाते का ₹ 1000
 (B) उचन्त खाता Dr. ₹ 1000 विक्रय खाते का ₹ 1000
 (C) रोकड़ खाता Dr. ₹ 1000 उचन्त खाते का ₹ 1000
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

indiresult.in whatsapp - 9352018749

64. Profit of last three years were ₹ 6000, ₹ 13000 and ₹ 8000. The value of goodwill at 2 years purchased of average profit will be :
 (A) ₹ 27000
 (B) ₹ 9000
 (C) ₹ 18000
 (D) ₹ 81000
65. Company's dividend policy is irrelevant and it does not effect the shareholder's wealth. Whose theory is based on this assumption ?
 (A) Walter
 (B) Modigliani and Miller
 (C) Soloman Izra
 (D) None of the above
66. A list of assets, liabilities and owner's equity of a business enterprise as on a specific date is called :
 (A) Balance sheet
 (B) Income statement
 (C) Cash flow statement
 (D) None of the above
67. Working capital is :
 (A) Proprietor's own capital
 (B) Borrower capital
 (C) Amount of sale
 (D) Current assets – current liabilities
68. According to straight line method, depreciation is calculated on :
 (A) Opening balance
 (B) Closing balance
 (C) Original Cost
 (D) Market value
69. For claiming exemption U/S-54 of Income Tax, the assessee should purchase residential property :
 (A) 2 years after the date of transfer
 (B) 3 years after the date of transfer
 (C) 1 year before or 2 years after the date of transfer
 (D) 1 year before or 3 years after the date of transfer
70. Horizontal analysis is known as :
 (A) Dynamic analysis
 (B) Structural analysis
 (C) Static analysis
 (D) None of the above
64. पिछले तीन वर्षों के लाभ ₹ 6000, ₹ 13000 तथा ₹ 8000 थे। ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर होगा :
 (A) ₹ 27000
 (B) ₹ 9000
 (C) ₹ 18000
 (D) ₹ 81000
65. कम्पनी की लाभांश नीति अप्रासंगिक है और यह अंशधारियों की सम्पदा को प्रभावित नहीं करती है। इस मान्यता पर किसका सिद्धान्त आधारित है ?
 (A) वाल्टर
 (B) मोदीग्लियानी और मिलर
 (C) सोलोमन इजरा
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
66. एक विशिष्ट तिथि को एक व्यापारिक संस्था की सम्पत्तियों, दायित्वों एवं स्वामी की समता की सूची कही जाती है :
 (A) बैलेंस शीट
 (B) आय विवरण
 (C) रोकड़ प्रवाह
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
67. कार्यशील पूँजी है :
 (A) स्वामी की अपनी पूँजी
 (B) उधार ली गई पूँजी
 (C) बिक्री की रकम
 (D) चालू सम्पत्तियाँ – चालू दायित्व
68. सरल रेखा प्रणाली के अनुसार ह्रास की गणना की जाती है :
 (A) आरंभिक शेष
 (B) अंतिम शेष
 (C) मौलिक लागत
 (D) बाजार मूल्य
69. आयकर धारा-54 के अंतर्गत कर छूट प्राप्त करने के लिए करदाता को निवासीय सम्पत्ति क्रय करनी चाहिये :
 (A) सम्पत्ति हस्तान्तरण तिथि से 2 वर्ष बाद
 (B) सम्पत्ति हस्तान्तरण तिथि से 3 वर्ष बाद
 (C) सम्पत्ति हस्तान्तरण तिथि से 1 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष बाद
 (D) सम्पत्ति हस्तान्तरण तिथि से 1 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष बाद
70. क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है :
 (A) गतिशील विश्लेषण
 (B) संरचनात्मक विश्लेषण
 (C) स्थैतिक विश्लेषण
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

indiresult.in whatsapp - 9352018749

71. Depreciation is charged on :
 (A) Current assets
 (B) Wasting assets
 (C) Working assets
 (D) Fixed assets
72. The term 'capital structure' implies :
 (A) Share capital + Reserves + Long-term Debits
 (B) Share capital + Long and Short term Debits
 (C) Share capital + Long-term Debits
 (D) Equity and preference share capital
73. A.D.R. are issued in :
 (A) China
 (B) Canada
 (C) India
 (D) USA
74. Who invented the double entry system of Book-Keeping ?
 (A) Pickles
 (B) Lucas Pacioli
 (C) Batliboi
 (D) None of the above
75. Balance of forfeited shares account after re-issue of forfeited shares is transferred to :
 (A) Profit & Loss Account
 (B) Capital Reserve Account
 (C) General Reserve Account
 (D) None of the above
76. The highest level need in the need hierarchy of Abraham Maslow is :
 (A) Safety need
 (B) Belongingness need
 (C) Self-actualisation need
 (D) Prestige need
77. The discount account in triple column cash book records :
 (A) Trade discount
 (B) Cash discount
 (C) Seasonal discount
 (D) None of the above
78. Hire Purchase Act is :
 (A) 1932
 (B) 1956
 (C) 1972
 (D) 1872
71. ह्रास लगाया जाता है :
 (A) चल सम्पत्ति पर
 (B) कार्यहीन सम्पत्ति पर
 (C) कार्यशील सम्पत्ति पर
 (D) स्थायी सम्पत्ति पर
72. 'पूँजी ढाँचा' शब्द का आशय है :
 (A) अंश पूँजी + संचय + दीर्घकालीन ऋण
 (B) अंश पूँजी + दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन ऋण
 (C) अंश पूँजी + दीर्घकालीन ऋण
 (D) समता तथा अधिमान अंश पूँजी
73. ए0डी0आर0 निर्गमित किये जाते हैं :
 (A) चीन में
 (B) कनाडा में
 (C) भारत में
 (D) यू0एस0ए0 में
74. पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया ?
 (A) पिकिल्स
 (B) लूकास पेसियोली
 (C) बाटलीबॉय
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
75. जब्त किये गये अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात् अंश हरण खाते के शेष को हस्तान्तरित कर दिया जाता है :
 (A) लाभ-हानि खाते में
 (B) पूँजी संचय खाते में
 (C) सामान्य संचय खाते में
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
76. अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है :
 (A) सुरक्षा आवश्यकता
 (B) अपनेपन की आवश्यकता
 (C) आत्म-बोध की आवश्यकता
 (D) प्रतिष्ठा आवश्यकता
77. तीन खाने वाली रोकड़ बही में छूट का लेखा किया जाता है :
 (A) व्यापारिक छूट
 (B) नकद छूट
 (C) मौसमी छूट
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
78. किराया क्रय अधिनियम है :
 (A) 1932
 (B) 1956
 (C) 1972
 (D) 1872

79. Average profit of ₹ 20,000, normal profit ₹ 5,000. The value of goodwill on the basis of 3 years' purchase of super profit will be :
 (A) ₹ 45,000
 (B) ₹ 40,000
 (C) ₹ 60,000
 (D) None of the above
80. The maturity period of a commercial paper usually ranges :
 (A) 20 to 40 days
 (B) 60 to 90 days
 (C) 120 to 365 days
 (D) 90 to 364 days
81. On the basis of residence, the assesses are divided into how many categories ?
 (A) Two
 (B) Three
 (C) Four
 (D) Five
82. Dividend per share is ₹ 15, earning per share is ₹ 50, hence dividend pay out ratio is :
 (A) 750%
 (B) 333%
 (C) 30%
 (D) 65%
83. Treasury bills are basically :
 (A) An instrument to borrow short term funds
 (B) An instrument to borrow long term funds
 (C) An instrument of capital market
 (D) None of the above
84. Bank reconciliation statement is prepared by :
 (A) Customer of the bank
 (B) Bank
 (C) Tax authorities
 (D) Auditor
85. Excess working capital is evidence of :
 (A) Advanced credit
 (B) Demand of the product
 (C) Idle funds
 (D) None of the above
86. Variable cost per unit : ₹ 15, fixed expenses : ₹ 1,08,000 selling price at a breakeven point of ₹ 12,000 units would be :
 (A) ₹ 20
 (B) ₹ 22
 (C) ₹ 26
 (D) ₹ 24
79. औसत लाभ ₹ 20,000, सामान्य लाभ ₹ 5,000, ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर होगा :
 (A) ₹ 45,000
 (B) ₹ 40,000
 (C) ₹ 60,000
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
80. वाणिज्यिक प्रपत्रों की भुगतान अवधि साधारणतः होती है :
 (A) 20 से 40 दिन
 (B) 60 से 90 दिन
 (C) 120 से 365 दिन
 (D) 90 से 364 दिन
81. निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में बाँटा गया है ?
 (A) दो
 (B) तीन
 (C) चार
 (D) पाँच
82. प्रति अंश लाभांश ₹ 15, प्रति अंश अर्जन ₹ 50 है, अतः लाभांश भुगतान अनुपात होगा :
 (A) 750%
 (B) 333%
 (C) 30%
 (D) 65%
83. राजकोष बिल मूलतः होते हैं :
 (A) अल्पकालिक फण्ड उधार के प्रपत्र
 (B) दीर्घकालीन फण्ड उधार के प्रपत्र
 (C) पूँजी बाजार का एक प्रपत्र
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
84. बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है :
 (A) बैंक के ग्राहक द्वारा
 (B) बैंक द्वारा
 (C) कर अधिकारियों द्वारा
 (D) अंकेक्षक द्वारा
85. अधिक कार्यशील पूँजी प्रमाण है :
 (A) उन्नत साख का
 (B) उत्पाद की माँग का
 (C) निष्क्रिय कोषों का
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
86. प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत : ₹ 15, स्थायी व्यय : ₹ 1,08,000, अतः ₹ 12,000 इकाइयों के समविच्छेद बिन्दु पर विक्रय मूल्य होगा :
 (A) ₹ 20
 (B) ₹ 22
 (C) ₹ 26
 (D) ₹ 24

87. Margin of safety is the difference between :
 (A) Planned sales and planned profit
 (B) Planned sales and actual sales
 (C) Actual sales and break even sales
 (D) None of the above
88. Fixed assets purchased on credit are shown in :
 (A) Purchase book
 (B) Cash book
 (C) Journal proper
 (D) None of the above
89. Which leverage explains the relationship between contribution and earning before interest and tax :
 (A) Financial leverage
 (B) Operating Leverage
 (C) Composite leverage
 (D) None of the above
90. If profit is 25% on cost, then profit on sales will be :
 (A) 20%
 (B) 30%
 (C) $33\frac{1}{3}\%$
 (D) 40%
91. To which account would be credited goods given in charity ?
 (A) Sales Account
 (B) No Account
 (C) Cash Account
 (D) Purchases Account
92. Debentures of ₹ 7,50,000 are issued against the purchase of assets of ₹ 7,00,000. In this case ₹ 50,000 will supposed to be :
 (A) Goodwill
 (B) Capital reserve
 (C) Profit
 (D) Loss
93. Double-column cash book records :
 (A) All transactions
 (B) Cash and bank transactions
 (C) Only cash transactions
 (D) Only credit transactions
87. सुरक्षा सीमा अन्तर है :
 (A) नियोजित विक्रय व नियोजित लाभ के मध्य
 (B) नियोजित विक्रय व वास्तविक लाभ के मध्य
 (C) वास्तविक विक्रय व सम विच्छेद विक्रय के मध्य
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
88. उधार क्रय की गयी स्थायी सम्पत्ति को लिखा जाता है :
 (A) क्रय बही में
 (B) रोकड़ बही में
 (C) मुख्य जर्नल में
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
89. अंशदान तथा ब्याज और कर से पूर्व अर्जनों के मध्य सम्बन्ध किस उत्तोलन से स्पष्ट होता है ?
 (A) वित्तीय उत्तोलन
 (B) परिचालन उत्तोलन
 (C) मिश्रित उत्तोलन
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
90. यदि लागत पर लाभ 25% है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ होगा :
 (A) 20%
 (B) 30%
 (C) $33\frac{1}{3}\%$
 (D) 40%
91. दान के लिये दिया गया माल किस खाते के अंतर्गत आएगा ?
 (A) विक्रय खाता
 (B) कोई खाता नहीं
 (C) रोकड़ खाता
 (D) क्रय खाता
92. ₹ 7,00,000 की सम्पत्ति क्रय करने के बदले ₹ 7,50,000 के ऋणपत्र निर्गमित किये गये, इस स्थिति में ₹ 50,000 को माना जायेगा :
 (A) ख्याति
 (B) पूँजी संचय
 (C) लाभ
 (D) हानि
93. द्वि-स्तम्भीय रोकड़ पुस्तक में अभिलेखित होता है :
 (A) सभी लेन-देन
 (B) नकद व बैंक सम्बन्धी लेन-देन
 (C) केवल नकद लेन-देन
 (D) केवल उधार लेन-देन

94. If financial leverage is 2.14, by what percentage will taxable income increase if EBIT increases by 6% :
- (A) 0.36%
 (B) 12.84%
 (C) 21.4%
 (D) None of the above
95. cost of goods sold is ₹ 1,20,000 and gross loss is 1/4 of sales, amount of sales is :
- (A) ₹ 90,000
 (B) ₹ 1,44,000
 (C) ₹ 1,50,000
 (D) ₹ 96,000
96. Which is not included in quick assets :
- (A) Stock
 (B) Debtors
 (C) Cash at bank
 (D) Cash in hand
97. Fixed cost per unit increases when :
- (A) Variable cost per unit increases
 (B) Variable cost per unit decreases
 (C) Production volume increases
 (D) Production volume decreases
98. Financial Leverage is measured by :
- (A) $\frac{EBIT}{EAT}$
 (B) $\frac{EBIT}{EBT}$
 (C) $\frac{EAIT}{EBT}$
 (D) $\frac{C}{EBIT}$
99. Share of goodwill bought by new partner called :
- (A) Premium
 (B) Capital
 (C) Revaluation
 (D) Private capital
100. According to which concept, the owner to the business is taken as creditor for the capital invested by him ?
- (A) Dual aspect concept
 (B) Money measurement concept
 (C) Business entity concept
 (D) Cost concept
94. यदि वित्तीय उतोलन 2.14 है, तो EBIT में 6% वृद्धि होने पर कर योग्य आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी :
- (A) 0.36%
 (B) 12.84%
 (C) 21.4%
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
95. विक्रय किए गए माल की लागत ₹ 1,20,000 है तथा सकल हानि विक्रय का 1/4 है, विक्रय की राशि है
- (A) ₹ 90,000
 (B) ₹ 1,44,000
 (C) ₹ 1,50,000
 (D) ₹ 96,000
96. तरल सम्पत्तियों में कौन शामिल नहीं है :
- (A) रहतिया
 (B) देनदार
 (C) बैंक में रोकड़
 (D) हाथ में रोकड़
97. स्थायी लागत प्रति इकाई में वृद्धि होती है, जब :
- (A) प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत में वृद्धि हो
 (B) प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत में कमी हो
 (C) उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो
 (D) उत्पादन की मात्रा घटने पर
98. वित्तीय लीवरेज का मापन होता है :
- (A) $\frac{ई०बी०आई०टी०}{ई०ए०टी०}$
 (B) $\frac{ई०बी०आई०टी०}{ई०बी०टी०}$
 (C) $\frac{ई०ए०आई०टी०}{ई०बी०टी०}$
 (D) $\frac{सी०}{ई०बी०आई०टी०}$
99. नये साझेदार द्वारा लाया गया ख्याति का भाग कहलाता है :
- (A) प्रीमियम
 (B) पूँजी
 (C) पुनर्मूल्यांकन
 (D) व्यक्तिगत पूँजी
100. किस अवधारणानुसार व्यवसाय का स्वामी उसके द्वारा लगाई गयी पूँजी के लिए लेनदार समझा जाता है ?
- (A) द्वि-पहलू अवधारणा
 (B) मुद्रा मापन अवधारणा
 (C) व्यवसाय अस्तित्व अवधारणा
 (D) लागत अवधारणा

indiresult.in whatsapp - 9352018749

6. कृपया ध्यान रखें कि ओ0एम0आर0 पत्रक में, उचित स्थान पर अनुक्रमांक और प्रश्न पुस्तिका सीरीज A, B, C या D को ध्यान से एवं बिना चूक या विसंगति के भरने एवं कूटबद्ध करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की है। किसी भी प्रकार की चूक/विसंगति की स्थिति में ओ0एम0आर0 पत्रक निरस्त कर दिया जायेगा
Please note that it is the candidate's responsibility to encode and fill in the roll number and question booklet series A, B, C or D carefully and without any omission or discrepancy at the appropriate place in the OMR Sheet, any omission/discrepancy will render the OMR Sheet liable for rejection.
7. प्रत्येक सही उत्तर के लिये 1.0 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक काटा जायेगा और जिस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया है उसका कोई अंक नहीं दिया जायेगा।
1.0 mark will be given for every correct answer. On giving wrong answer 0.25 mark will be deducted and if question is not attempted by the candidate, no mark will be awarded.
8. यदि हिन्दी एवं अंग्रेजी वर्जन में किसी प्रकार की विसंगति आती है, तो अंग्रेजी वर्जन ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
If there is any mis-match in Hindi & English version, then english version will be finally acceptable.
9. केवल ओ0एम0आर0 पत्रक पर निश्चित उत्तर पर ही चिह्न बनायें। ओ0एम0आर0 पत्रक तथा प्रश्न-पुस्तिका पर कोई अवांछित चिह्न न बनायें और न ही कहीं पर भी अपना नाम लिखें। यह भी ध्यान रखा जाय कि एक बार अंकित किया गया गोले या चिह्न पर फ्लूड लगाना या रबड़ से मिटाना या अन्य विधि से खुरचना या छिपाने का प्रयास करना पूर्णतः वर्जित है। इस प्रकार की कार्यवाही करने पर ऋणात्मक अंक दिये जायेंगे।
Make the mark only in the space provided on the OMR Sheet. Don't make any stray mark or your name on any part of the question booklet and OMR Sheet. It should also be kept in mind that trying to hide any circle by using fluid, erase or scratch in any method is prohibited. Negative marks will be given for such acts.
10. कच्चा कार्य (Rough work) प्रश्न पुस्तिका में ही किया जाय।
Rough work is to be done in the Question booklet only.
11. प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु अपने चयनित विकल्प के अनुसार एक ही वृत्त को निम्न प्रकार भरें। एक से अधिक भरे गए वृत्तों व उसमें लगाये गये कोई चिह्न आदि को गलत उत्तर माना जाएगा।
Darken only one circle corresponding to alternative answer that you choose for each question, as darkening of more than one circle shall be treated as wrong answer.

उदाहरण : मान लीजिए किसी विषय का प्रश्न संख्या 41 इस प्रकार है :

Example: Suppose Q.No. 41 of the subject is as below:

Q.No. 41: What type of mixture is smoke ?

- (A) Solid mixed with a gas
(B) Gas mixed with a gas
(C) Liquid mixed with a gas
(D) Gas mixed with a liquid and a solid


धुआँ किस प्रकार का मिश्रण है ?

- (A) गैस मिश्रित ठोस
(B) गैस मिश्रित गैस
(C) गैस मिश्रित द्रव
(D) द्रव एवं ठोस मिश्रित गैस

यदि आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर/विकल्प (D) है, तो ओ0एम0आर0 पत्रक में इस अनुभाग से संबंधित विषय-वस्तु कॉलम प्रश्न संख्या 41 के सामने के वृत्त को इस प्रकार भरें।

If you think the correct alternative answer is (D), then fill in the relevant column of the same section of the OMR Sheet as follows:

सही विधि (Correct Method)



गलत विधि (Wrong Method)



(यदि गलत विधि से भी किसी अन्य गोले में कोई चिह्न लगाया गया है तो सही उत्तर के साथ चिह्न को विधि के अनुसार गलत उत्तर मानते हुए गलत उत्तर की भाँति 0.25 अंक काटा जायेगा।)

(If more than one circle is darken or any impression by the candidate either properly or improperly then 0.25 mark will be deducted for every question.)

12. परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल कैलकुलेटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल फोन, पेजर इत्यादि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।
Use of electronic/manual calculator or any electronic equipment like mobile phone, pager etc. is not allowed.

नोट :

- (i) इस परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जायेगा।
There is a provision of NEGATIVE MARKING in this examination. For every wrong answer 0.25 mark will be deducted.
- (ii) प्रत्येक प्रश्न के दो या दो से अधिक उत्तर देने पर भी ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। इसमें भी गलत उत्तर की भाँति 0.25 अंक काटा जायेगा।
On giving of two or more than two answer for every question, 0.25 mark will be deducted.
- (iii) इस प्रश्न-पुस्तिका में अपने अनुक्रमांक और कच्चा कार्य (Rough Work) के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
Do not inscribe anything except the Roll Number and rough work in this question booklet.
- (iv) परीक्षा समाप्ति के पश्चात ओ.एम.आर. पत्रक को ऊपर छिद्रक के स्थान से मोड़ें फिर धीरे-धीरे फाड़ें। अभ्यर्थी प्रति को अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे तथा मूल प्रति व कार्यालय प्रति कक्ष निरीक्षक को उपलब्ध करायेंगे।
Fold along perforation, given on the top of OMR Sheet and tear it slowly after examination is over. Candidate will carry candidate's copy and handover the original and office copy of OMR Sheet to the invigilator.